

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – सप्तम

दिनांक -०७ -०६ - २०२१

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज भूतकाल के बारे में अध्ययन करेंगे।

भूतकाल

वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले उन्हें भूतकाल कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका होता है। उदाहरण के तौर पर :-

- वह जा चुका था।
- मैं ट्रेन में बैठा था।
- बल्ब जल रहा था।
- मीना उसे मार रही थी।
- वह परीक्षा के लिए जा रहा था।
- राम जा रहा था।
- श्याम जा रहा था।
- ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी।
- गाड़ी चल रही थी।

भूतकाल के भेद

- सामान्य भूतकाल :- यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है। उदाहरण के तौर पर :- शिवम आया। अनंत गया। उसने यह पाठ पढ़ा। रावण को मार दिया।

- आसन भूतकाल :- आसन भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ समय ही हुआ है। उदाहरण के तौर पर :- उसने सेब खाया है। वह पढ़कर आई है।
- पूर्ण भूतकाल :- पूर्ण भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है। उदाहरण के तौर पर :- मैं अभी लेख लिख रहा था। वे आम खा रही थीं।
- अपूर्ण भूतकाल :- अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है, एवं इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है। जैसे :- वह गाड़ी चला रहा था। मैं सो रहा था।
- संदिग्ध भूतकाल :- संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया संदिग्ध है, एवं यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं। उदाहरण के तौर पर :- वह गाड़ी चला रहा होगा। तू सो रहा होगा।
- हेतुहेतुमद भूतकाल :- भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके, उन्हें हेतुहेतुमद भूतकाल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर :- अगर पैसे बचाए होते, तो यह दिन न देखना पड़ता।